

एक नजर

जिला कारागार हरिद्वार के 6 कार्मिक निलंबित, जांच के निर्देश

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : जिला कारागार, हरिद्वार से दो बंदियों के भाग जाने की घटना पर 6 कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। उप महानिरीक्षक कारागार इसकी जांच कर रिपोर्ट देंगे।

बताया गया कि निरूद्ध सिद्धो बंदी पंकज पुत्र मगन लाल एवं विचारधर्मी बंदी गमकुमार पुत्र श्याम गत शुक्रवार की सायंकाल को कारागार से निकल गए। उक्त घटना में संबंधित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है तथा इस घटना के लिए प्यार लाल आर्य, प्रभारी अधीक्षक/कारागार, कुंवर पाल सिंह उप कारागार सर्फिल जेलर/चक्राधिकारी, प्रेमशंकर यादव दिन हेड वार्ड, विजय पाल सिंह हेड वार्ड प्रभारी गिर्दा हेड, ओमपाल सिंह बंदीरक्षक प्रभारी निर्माण स्थल, नीलेश कुमार हेड वार्ड प्रभारी गेटकॉपर को उनके द्वारा ड्यूटी के प्रति बर्ती गयी लापरवाही एवं उसीसिना के निमित्त प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। घटना की विस्तृत जांच हेतु उप महानिरीक्षक कारागार को निर्देशित किया गया है। विस्तृत जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही संपादित की जायेगी।

केदारनाथ उप चुनाव: रुद्रप्रयाग में कई प्रभारियों की नियुक्ति

देहरादून। केदारनाथ उप चुनाव में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के साथ ही रुद्रप्रयाग में नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुंवर सजवान की संसृति पर प्रदेश अध्यक्ष करन माहवा की ओर से कई प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है। शनिवार को यह जानकारी देते हुए उपाध्यक्ष संतान श्युरा दत्त जोशी ने बताया कि बिरेन्द्र सिंह बुटोला को अग्रस्थमुनि ब्लाक का प्रभारी, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गजपाल सिंह रावत को उखीमठ ब्लाक का प्रभारी, जिला पंचायत सदस्य नरेन्द्र सिंह बिष्ट को ब्लाक कांग्रेस कमेटी चोपता का प्रभारी, युवा कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सतोष रावत को नगर कांग्रेस कमेटी उखीमठ का प्रभारी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री दीपक शंभरी को अग्रस्थमुनि नगर कांग्रेस कमेटी का प्रभारी का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

खाने में थूकने की घटनाओं का विरोध करें मुस्लिम धर्मगुरु: रामदेव

हरिद्वार। योगगुरु स्वामी रामदेव ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुस्लिम युवकों के भोजन को अशुद्ध कर दूसरों को खिलाने की घटनाओं का पुनरावृत्ति विरोध करने का आह्वान किया है। उन्होंने आश्चर्य जताकर कहा कि इस तरह की घटनाओं पर भी मुस्लिम धर्मगुरु चुप्पी साधे हुए हैं। कहा कि ऐसी घटनाओं से मुस्लिम धर्म और कुरान पाक का प्रचार नहीं होता है। मुसलमान और कुरान ऐसी घटनाओं से बदनाम हो रहे हैं। कर्मखल के दिव्य योग मंदिर में शनिवार को योगगुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कन्या पूजन किया। इस दौरान योगगुरु और आचार्य ने लोगों को दरवाहा की शुभकामनाएं दीं। योगगुरु ने हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल थूकने, पेशाब करने और गंदगी फैलाने के वीडियो पर कहा कि ऐसी घटनाओं का मौलानियों और धर्मगुरुओं को आगे आकर बोलना चाहिए।

बढ़ सकती है कांस्टेबल भर्ती की उम्र सीमा, सीएम ने दिया आश्वासन

देहरादून। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ सकती है। शनिवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधिमेंडल ने इस मामले पर सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात की। सीएम ने उम्र सीमा बढ़ाने का आश्वासन दिया है। बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने बताया कि इस दौरान सीएम ने वहां मौजूद गृह सचिव शैलेश बगोली को बेरोजगारों की फाइल देकर उचित कार्यवाई के निर्देश दिए। राम कंडवाल के अनुसार 2014 के बाद 2022 में पूरे 8 साल बाद उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी, लेकिन उस भर्ती में एक लाख के करीब युवाओं ने फार्म नहीं भर सके थे। क्योंकि आयु सीमा सिर्फ 18 से 22 वर्ष रखी गई थी।

रक्षा मंत्री ने 75 परियोजनाओं का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया

उत्तराखण्ड की 9 परियोजनाएं का भी शामिल

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 75 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें 09 परियोजनाएं उत्तराखंड की शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वरुंअल रूप से उपस्थित थे।

उत्तराखंड में जिन 09 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, उनमें गढ़वाल क्षेत्र में कच्छा पुल, मीग गधेरा पुल, घस्तोली पुल, पागल नाला पुल और देहरादून जनपद में शिवालिक परियोजना का कार्यालय और रहने का स्थान शामिल हैं। कुमाऊं क्षेत्र में सुरिगघाट पुल, चिमला पुल, पैनागढ़ पुल और गोसीगढ़ पुल का लोकार्पण किया गया। उत्तराखंड



की 09 परियोजनाओं का लोकार्पण करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पूरी हुई बुनियादी ढांचे की ये परियोजनाएं विशेष रूप से दूरराज और वंचित क्षेत्रों के उत्थान के लिए काफी सहायक होंगी।

ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी को बढ़ाकर और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर राज्य के परिदृश्य को बदलने में सहायक करेंगी। इनसे न केवल पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि महत्वपूर्ण रोजगार के अवसरों के सृजन का भी अवसर

मिलेगा। ये परियोजनाएं जीवंत ग्राम समुदायों के विकास को गति देंगी और दूरराज के सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार करेंगी, जिससे इन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों में आर्थिक विकास और रक्षा क्षमताएं दोनों मजबूत होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए पुलों के निर्माण से राज्य में कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। यात्रा के समय को कम करेंगे। इससे धार्मिक एवं सामान्य पर्यटन के साथ ही सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे और उत्तराखंड को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करेंगे। ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक सतत विकास और समृद्धि को बढ़ावा देंगी। इस अवसर पर सचिव श्री आर. मोनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, शिवालिक परियोजना के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर प्रसन्न जोशी और कर्नल प्रदीप शर्मा उपस्थित थे।

दिल्ली—एनसीआर में प्रदूषण पर लगेगी लगाम!

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण गहरने से पहले ही ग्रेप (ग्रेड्डेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) लागू कर दिया जाएगा। यानी वायु गुणवत्ता बढा खराब स्तर पर पहुंचने के संकेत मिलने पर वास्तव में स्थिति खराब और बहुत खराब होने से पहले ही एडवॉन्स में ग्रेप लागू किया जाएगा ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सितंबर में ग्रेड्डेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान पर विचार के बाद यह निर्णय लिया। आयोग ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट में कही है। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वैसे तो 2017 से ग्रेप लागू है। ग्रेप में वायु गुणवत्ता खराब होने की स्थिति को देखते हुए कुछ नियंत्रण लागू किये जाते हैं जैसे जैसे स्थिति विगड़ती है नियंत्रण और कड़े हो जाते हैं।

201 से 300 के बीच होता है ग्रेप तो उसे क्या करते?
ग्रेप के चार स्तर हैं, खराब, बहुत खराब, गंभीर और अति गंभीर। जब दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एफ्यूआइ) 201 से 300 के बीच होता है तो उसे खराब माना जाता है और तब ग्रेप वन के नियंत्रण लागू होते हैं जैसे प्रदूषण फैलाने



वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांटों पर नियंत्रण, होटेल रेखां और खुले भोजनालयों में तंदूर में कोयला और लकड़ी जलाने पर रोक, निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं में धूल शमन के दिशा निर्देशों का पालन करना, कचरे का ठोस पर्यावरणीय प्रबंधन आदि।

निर्माण और तोड़फोड़ पर रहता प्रतिबंध
एफ्यूआइ 301 से 400 के बीच रहता है तो उसे बहुत खराब माना जाता है और ग्रेप का दूसरा चरण लागू होता है जिसमें पार्किंग शुल्क बढ़ाना, सीपनएड इलेक्ट्रिक बस व मेट्रो की सेवाएं बढ़ाना शामिल है। एफ्यूआइ के 401 से 450 रहने को गंभीर माना जाता है और ग्रेप का

तीसरा चरण लागू होता है जिसमें दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल की बीएस 3 कारों और डीजल की बीएस 4 कारों पर रोक लग जाती है। एफ्यूआइ के 450 से ऊपर रहने को अति गंभीर माना जाता है और ऐसा होने पर ग्रेप का चौथा चरण लागू होता है जिसमें दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक, सिर्फ जरूरी सामान की आपूर्ति वाले सीपनएड जालों को प्रवेश मिलता है। दिल्ली में डीजल के हल्के और भारी मालवाहकों पर प्रतिबंध रहता है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक अक्टूबर को दाखिल रिपोर्ट में कहा है कि वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए ग्रेप पर विचार हुआ और इसे रिपेज किया गया है।

कब लागू होगा ग्रेप?
ग्रेप को वायु प्रदूषण बढ़ने के मौसम विभाग (आइएमडी) और आइआइटीएम की भविष्यवाणी और अन्य संकेतों को देखते हुए पहले से लागू करने का निर्णय लिया गया है। अब सितंबर ज्यदा सटीक हो गया है और पहले से ही मौसम और वायु गुणवत्ता की स्थिति के सटीक संकेत मिल जाते हैं ऐसे में स्थिति खराब होने के संकेत मिलते ही ग्रेप लागू किया जाएगा। आयोग ने एडवॉन्स एक्शन प्लान तैयार करने और ग्रेप में जल्दी निर्देश जारी करने के लिए एक सब कमेटी भी गठित की है।

17 नवंबर को बंद होंगे बदरीनाथ धाम के कपाट

गंगोत्री धाम के 2 और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को होंगे बंद

चमोली। बदरीनाथ धाम के कपाट रविवार 17 नवंबर रात्रि 9 बजकर 7 मिनट पर शीतकाल हेतु बंद हो जायेंगे। विजय दशमी के पर्व पर बदरीनाथ मंदिर परिसर में बदरीनाथ मंदिर के धर्माधिकारी राधाकृष्ण थापलियाल ने बदरीनाथ के रत्न अमरनाथ नबद्री के सानिध्य में पंचायत अध्वरय के बाद इस वर्ष के यात्रा अखति में बदरीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की घोषणा की। जबकि, गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे। विजयदशमी के पवित्र अवसर को बंधे होंगे और केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की घोषणा कर दी गई। द्वितीय केदार मंदाहेश्वर के कपाट 20 नवंबर और तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को शीतकाल के लिए



बंद कर दिए जाएंगे। वहीं हर वर्ष की तरह इस बार भी परम्परागुनार विश्व प्रसिद्ध केदारेश्वर मंदिर के कपाट बंद होने की तिथि निकाली गई। द्वितीय केदार भगवान मंदाहेश्वर के कपाट 20 नवंबर को साढ़े आठ बजे वृद्धिक लय में शीतकाल के लिए बंद होंगे। दूसरे और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि मङ्कमठ

डोली कार्यक्रम

बाबा केदारनाथ डोली यात्रा कार्यक्रम 3 नवंबर को भैयादुर्ग के पान पर्व पर प्रातः 8.30 बजे कपाट बंद होंगे। इसी दिन बाबा केदार की पंचमुखी भांग मूर्ति वल विग्रह उत्सव डोली में विराजमान होकर रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेंगी। 4 नवंबर को विधानमंदि मंदिर गुप्तेश्वरी में रात्रि प्रवास। 5 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी डोली। छह मास तक भक्त यही बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे।

द्वितीय केदार मंदाहेश्वर भगवान डोली यात्रा कार्यक्रम : 20 नवंबर को भगवान की उत्सव डोली पहले दिन रात्रि विश्राम के लिए गौडार पहुंचेगी। 21 नवंबर को गोण्डार से रात्री, 22 नवंबर को रात्री से गिरिया एवं 23 नवंबर को गिरिया से शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विराजमान होगी।

तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ डोली यात्रा कार्यक्रम : 4 नवंबर को प्रातः साढ़े ग्यारह बजे कपाट बंद होने के बाद इसी दिन डोली रात्रि विश्राम के लिए चोपता पहुंचेगी। 5 को चोपता से रात्रि विश्राम के लिए भनकुट्टा, 6 को भी डोली भनकुट्टा में रहेगी व 7 नवंबर को डोली शीतकालीन गद्दीस्थल मॉकडेण्ड मंदिर मङ्कमठ में विराजमान होगी। (एजेंसी)

समिति के कर्मचारियों की उपस्थिति में सुबह साढ़े नौ बजे पंचायत गणना के अनुसार मंदाहेश्वर मंदिर के कपाट बंद होने की तिथि निकाली गई। द्वितीय केदार भगवान मंदाहेश्वर के कपाट 20 नवंबर को साढ़े आठ बजे वृद्धिक लय में शीतकाल के लिए बंद होंगे। दूसरे और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि मङ्कमठ

सहारा रेगिस्तान में चमत्कार, सूखी झीलों में 50 साल बाद भरा पानी

नई दिल्ली। अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में 50 साल बाद चमत्कार हुआ है। दुनिया के सबसे शुष्क माने जाने वाले सहारा रेगिस्तान में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते वहां बाढ़ आ गई है। बाढ़ के कारण ताड़ के पेड़ों और रेत के टीलों के बीच पानी के नीले लेयून दिखाई दे रहे हैं, मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले 50 साल में पहली बार सहारा रेगिस्तान में इतने कम समय में इतनी ज्यादा बारिश हुई है। ग्रह पर सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में स्थित दुनिया के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है और गर्मियों के अंत में शायद ही वहां कभी बारिश होती है। मोस्को सरकार ने कहा कि सितंबर में दो दिनों की बारिश कई क्षेत्रों में वार्षिक औसत से अधिक हो गई है, जहां सालाना 10 इंच से भी कम बारिश होती है। इन क्षेत्रों में से एक टाट भी है, जहां इस बार बारिश से बाढ़ आ गई।

24 घंटे के दौरान 3.9 इंच से ज्यादा बारिश
सहारा रेगिस्तान में भारी बारिश हो रही है। माली और मॉरिटानिया में इस समय असाधारण रूप से उच्च स्तर की बारिश हो रही है। साथ ही अटलांटिक में तूफान के कम आने का ये भी एक कारण हो सकता है।

असत्य पर सत्य की जीत: पीएम और राष्ट्रपति ने रावण को मारा तीर

सोनिया-राहुल ने भी देखा राम-रावण युद्ध

नई दिल्ली। राजधानी में शनिवार को विजयदशमी का पर्व बड़े हौश्लस और भव्यता के साथ मनाया गया। अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक इस पर्व में प्रभु श्रीराम ने रावण का संहार करते हुए उसके साथ-साथ कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को अग्नि के सुपुर्द किया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर लाखों श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बने और जय श्रीराम के नारों से वातावरण गुंज उठा। वहीं, अलग-अलग रामलीला कमेटीयों के यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी व अन्य नेताओं और अभिनेता अजय देवगन और अभिनेत्री करीना कपूर ने पुतलों पर तीर चलाए। इस अवसर पर राजधानी में करीब छह सौ रामलीला कमेटीयों ने राम-रावण युद्ध की लीला का भव्य मंचन किया। रावण वध के दृश्य ने रामलीला कमेटीयों के पंडालों को प्रभु श्रीराम के जयकरों से गुंजायमान कर दिया। भक्तों में भक्ति और उत्साह का माहौल छा गया। इसके साथ ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। इन पुतलों के जलते ही अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश फैल गया। मुख्य आयोजनों के अलावा चिरम दिल्ली में श्री धार्मिक रामलीला दक्षिण दिल्ली, डेगवाल नगर में नवश्री मानव धर्म रामलीला कमेटी, अशोक विहार फेस-दो में आदर्श रामलीला कमेटी, वेस्ट विनोद नगर में कामधेनु रामलीला समिति, पीतमपुर में श्री केशव रामलीला कमेटी, कोंडली में जय श्री हनुमंत रामलीला कमेटी के यहां भी राम-रावण के बीच युद्ध का मंचन किया गया और रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। पीतमपुर



में श्री केशव रामलीला कमेटी के यहां भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मुख् अतिथि थे।
राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने भी देखा राम-रावण युद्ध का मंचन
राजधानी में सबसे भव्य आयोजन लालकिला मैदान में श्री धार्मिक लीला कमेटी की ओर से आयोजित रामलीला में हुआ। यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांसद प्रवीण खंडेलवाल व प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वरिंद सचदेवा और अन्य विभिन्न अतिथियों की उपस्थिति ने आयोजन की शोभा बढ़ाई। विदेशी राजनयिकों की भी इस अवसर पर उपस्थिति रही। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दीप प्रज्वलन और श्रीराम, लक्ष्मण व हनुमान के पात्रों का तिलक कर रामलीला मंचन का शुभारंभ किया।


आसमान की ऊंचाई नापने के लिए तैयार है उत्तराखण्ड के युवा

पर्यटन विभाग दे रहा है युवाओं को पैराग्लाइडिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही धामी सरकार

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : उत्तराखण्ड का पर्यटन अब तक मुख्य तौर पर धार्मिक और सामान्य पर्यटन तक सीमित था, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार इसमें साहसिक पर्यटन के जरिए नए आयाम जोड़ रही है। मुख्यमंत्री को विजय के अनुपम इसके लिए पर्यटन विभाग 700 से अधिक युवाओं को पैराग्लाइडिंग का निशुल्क कोर्स करवा रहा है।

उत्तराखण्ड में नैनीताल जिले के भीमताल और देहरादून में मालदेवता जैसे कुछ स्थानों पर पैराग्लाइडिंग पर्यटन बढ़ रहा है। नई संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन विभाग ना सिर्फ इसके लिए नए स्पॉट तलाश रहा है, बल्कि स्थानीय युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दे रहा है। इस तरह साहसिक पर्यटन में अपने कौशल के जरिए युवा ना सिर्फ अपना



रोजगार, स्वरोजगार कमा सकेंगे, बल्कि उत्तराखण्ड में पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकेंगे। इसी क्रम में सरकार की ओर से दिवरी में कुल 15 बैच में युवाओं को बेसिक से लेकर ग्राइंडेड पैराग्लाइडिंग के पांच अलग-अलग कोर्स कराए जा रहे

हैं। पर्यटन विभाग इसमें प्रशिक्षण, रहने, खाने की सुविधा निःशुल्क दे रहा है। विभाग ने प्रथम चरण में 741 युवाओं को प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 124 महिलाएं शामिल हैं। उत्तराखण्ड में साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए युवाओं को पैराग्लाइडिंग, वाइट वाटर राफ्टिंग, माउंटनिंग जैसे साहसिक खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि अगले कुछ सालों में उत्तराखंड के पास इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन हो, ताकि उत्तराखण्ड में साहसिक पर्यटन ना सिर्फ फूल फले बले, बल्कि यह सुश्रुति भी हो।

4 नवम्बर तुंगनाथ और 20 नवम्बर को मदमहेश्वर के कपाट होंगे बंद

रुद्रप्रयाग : विजयदशमी के मौके पर पंचकेदारों में द्वितीय केदार भगवान मंदाहेश्वर और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की घोषणा कर दी गई। द्वितीय केदार मंदाहेश्वर के कपाट 20 नवंबर और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को बंद होंगे। केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली 5 नवम्बर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी।

द्वितीय केदार मंदाहेश्वर भगवान डोली यात्रा कार्यक्रम : 20 नवंबर को भगवान की उत्सव डोली पहले दिन रात्रि विश्राम के लिए गौडार पहुंचेगी। 21 नवंबर को गोण्डार से रात्री, 22 नवंबर को रात्री से गिरिया एवं 23 नवंबर को गिरिया से शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विराजमान होगी।

दिल्ली में ओडिशा की महिला से हैवानियत

दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के सराय काले खां में शुक्रवार सुबह एक युवती के साथ दुष्कर्म कर उसे सड़क किनारे फेंकने का मामला सामने आया है। युवती को गंभीर हालत में एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। नौ सेना के अधिकारी ने पीड़िता को सड़क किनारे पड़ा देखा। उसके बाद पुलिस को सूचना के देने के साथ ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने युवती का मेडिकल कराने के बाद दुष्कर्म सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज किया है। फिखलाल आरोपियों को पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह एक राहगीर ने पुलिस को युवती के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना दी। पीसीआर की टीम मौके पर पहुंची और युवती अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां जांच में युवती के निजी



अंग से खून आने की जानकारी हुई। जांच के दौरान पता चला कि युवती मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली है। करीब एक साल पहले बिना घर वालों को बताए दिल्ली आ गई थी। करीब दो महीने पहले वह कटरिया सस्य में पुलिस को मिली थी। तब उसके परिजनों को सूचना दी गई थी, लेकिन वह अपने परिवार वालों के साथ नहीं गई। बाद में उसका मोबाइल गुम हो गया या चोरी हो गया।

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी

सड़क छावनी में तब्दील, इलाके में फैला तनाव

गोंडा। दशहरा पर्व पर गोंडा शहर के एक इलाके में तनाव का माहौल कायम हो गया। नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बड़गांव में नूराम मंदिर से आगे तकि्या मस्जिद व घोसियाना मोहल्ले के आसपास पत्थरबाजी होने से बवाल की स्थिति बन गई। हालांकि, सूचना मिलते ही इलाके को पुलिस बल और पीएससी के जवानों से छावनी में तब्दील कर दिया। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं ने मस्जिद के आसपास वाले दो और तीन मंजिला घरों से पत्थर फेंकने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन और हो हल्ला शुरू कर



दिया। कंट्रोल रूम से संदेश मिलते ही मौके पर एस्प्री विनीत जायसवाल खुद पहुंच गये और माइक हाथ में लेकर आरोप लगाया कि विनय गुप्ता ने तीन दिन उसके कपाट दुष्कर्म किया।

डांसर को बंधकर बनाकर इवेंट मैनेजर ने तीन दिन तक किया दुष्कर्म

गाजियाबाद। गाजियाबाद की रहने वाली युवती की रात को ताजगंज थाने में पहुंची। उसने बताया कि वह क्लब डांसर है। आगरा के रहने वाले विनय गुप्ता इवेंट कंपनी चलाते हैं। गुप्ता ने उसके मैनेजर से संपर्क किया था। आगरा में डांस प्रोग्राम के लिए उसे बुलाया गया था। वह आठ अक्टूबर को आगरा आई। विनय उसे अपने साथ फ्लैट पर ले गया। वहां उसकी पत्नी मीरा गुप्ता भी मौजूद थी।

मीरा ने उसे चाय बनाकर दी। चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया था, जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई। उसे कचरे में कैंद कर दिया गया। युवती ने आरोप लगाया कि विनय गुप्ता ने तीन दिन उसके कपाट दुष्कर्म किया।

हिंदुओं का दुर्बल रहना अपराध, विजयादशमी कार्यक्रम में आरएसएस चीफ ने दिया संदेश, बांग्लादेश पर भी भड़के

नई दिल्ली। नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में विजयादशी कार्यक्रम में आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने हिंदुओं को संगठित और सशक्त होने की अपील की। बांग्लादेश में हाल में हुए हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण की घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्बल और असंगठित होने का मतलब अत्याचार को निर्वंत्रण देना है। बांग्लादेश में तख्तापलट और उसके बाद भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के पीछे गरीबी अंतरराष्ट्रीय साजिश की ओर इशारा करते हुए मोहन भागवत ने देश को कमजोर करने वाली ऐसी ताकतों से सावधान रहने और एकजुट होकर मुकाबला करने की जरूरत



बताई। भागवत ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म की वीभत्स घटना के आरोपियों की पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बचाव को अपराध और

राजनीति की मिलीभगत बताते हुए इसे खतरनाक बताया।
गुंडागर्दी की इजाजत ही दी जा सकती
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हिंसक हमलों और भारत में गणेश विसर्जन के दौरान पत्थर की घटनाओं का उल्लेख करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि इसे रोकने का एकमात्र उपाय हिंदू समाज को एकजुट और सशक्त बनाना है। गणेश विसर्जन के दौरान पत्थर की घटनाओं को गुंडागर्दी करार देते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भी गुंडागर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती है। भागवत के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं ने पहली बार एकजुटता का प्रदर्शन किया, जिसके

कारण हिंसक हमलों में कमी आई। इसी तरह देश के भीतर भी गुंडागर्दी को रोकने के लिए हिंदू समाज को एकजुट और सशक्त होना होगा। उनके अनुसार पत्थरबान करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन तो बाद में कार्यवाई करेगी, लेकिन सबसे पहले अपना और अपनों की जान बचाना हमारा मूलभूत अधिकार है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के मूल में सद्भाव और सहिष्णुता है, इसीलिए यह मानव धर्म और विश्व धर्म भी है। मोहन भागवत ने सभी क्षेत्रों में भारत में हो रहे विकास और अंतरराष्ट्रीय जगत में बढ़ रही साख का उल्लेख करते हुए इसके खिलाफ दुनिया की कई ताकतों की साजिशों के प्रति आगाह किया।

गडकरी का साहस दिखाना प्रशंसीय

रेवडिांग दूसरी सन्धिडियों के भुगतान में रुकावट की शर्त पर ही बांटी जा सकती है। बल्कि कहा यह जाएगा कि इन पर अमल समाज की जड़ों को मजबूत करने वाली और मानव विकास का आधार बनने वाली योजनाओं की कीमत पर ही होता है।

भाजपा की अंदरूनी सियासी समीकरण वाले एंगल में सिर खपाने से बच सकें, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो कहा है, उसकी अहमियत बेहतर ढंग से समझ आ सकती है। गडकरी ने महाराष्ट्र में अपनी ही पार्टी की गठबंधन सरकार की नई घोषित लडकी बहिन योजना पर सवाल उठाए हैं। यह सच बयान किया है कि इस योजना पर अमल दूसरी सन्धिडी में कटौती की शर्त पर ही संभव है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिलाओं को 1,500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इसका लाभ हाई करोड़ महिलाओं को मिलेगा। इससे राज्य के खजाने पर 46 हजार करोड़ रुपये का नया सालाना बोझ आएगा। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद एकनथा शिंदे सरकार ने कुछ ऐसी नई घोषणाएं की, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में रेवड़ी कहा जाएगा। शिंदे ने आर्थिक रूप से कमजोर हर परिवार को हर साल तीन गैस सिलिंडर मुफ्त देने, किसानों को प्रति पांच हेक्टेयर जमीन पर पांच हजार रुपये बोस देने, और उनके बिजली बिल माफ करने की घोषणा भी की है। इन सबका अतिरिक्त बोझ खजाने पर आएगा। गडकरी की टिप्पणी गौरतलब है कि ऐसी योजनाओं पर अमल दूसरी सन्धिडियों के भुगतान में रुकावट की शर्त पर ही संभव है। बल्कि कहा यह जाएगा कि इन पर अमल समाज की जड़ों को मजबूत करने वाली और मानव विकास का आधार बनने वाली योजनाओं की कीमत पर ही होता है। मगर इस नव-उदारवादी दौर में जन-कल्याण का मतलब ऐसी योजनाओं का बढ़-चढ़ कर एलान हो गया है, जिस होड़ सभी पार्टियां शामिल हो चुकी हैं। सीधे और सरल शब्दों में इसे थोड़े खरीदने की होड़” कहा जा सकता है। इस चलन का विरोध धार के खिलाफ बोलना माना जाता है, जिसका साहस राजनेता नहीं दिखा पाते। महाराष्ट्र में चुनावी सर्गमियां शुरू हो चुकी हैं और उसके बीच गडकरी का यह साहस दिखाना प्रशंसीय है। ऐसी बातों से यह रझान थमेगा तो नहीं— फिर भी लोगों को सच बताने का अपना महत्त्व है। यह बात अवश्य बताई जानी चाहिए बांटी जा रही रेवडिांग समाज के दीर्घकालिक विकास की खातिर पर है।

कंजेशन घटेगा और खरीदत कम होंगे

विष्णु प्रिया सिंह

सोने से दो घंटे पहले खाना खाने की आदत डालें। रात में हल्का खाना खायें। सोने से पहले नाक ओर गला अच्छी तरह साफ करें जिससे कंजेशन घटे और खरीटी की आवाज कम हो। स्मॉकिंग, शराब और सेडेटिव्स को ना करें। इनसे गले के टिश्यू ढीले जाते हैं जो कारण बनते हैं खरीटी का।

खरीटे, आदमी खुद चैन से सोता है लेकिन पास वालों का सोना मुश्किल। लोगों के तलाक हो जाते हैं इनकी वजह से। क्यों लेते हैं लोग खरीटे? क्या ये किसी बीमारी के सिम्पटम हैं या कुछ और। आइये जानें खरीटी के कारण और छुटकारा पाने के तरीकों को। अगर आप खरीटे लेते हैं, तो शर्मिन्दा होने की जरूरत नहीं, ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं। ये कामान फिनोमिना है। वल्टर्न हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर के 45 प्रतिशत वयस्क खरीटे लेते हैं। इनमें 25 प्रतिशत तो रोजाना। जेन्डर के हिसाब से महिलायें कम, पुरूष ज्यादा खरीटे लेते हैं। और जैसे—जैसे उम्र बढ़ती है, खरीटे भी बढ़ जाते हैं।

काणव क्या खरीटे का?

खरीटे यानी सोते समय सांस लेने की आवाज। जो आती है सांस की नली में कंजेशन से। जितना ज्यादा कंजेशन उतनी ज्यादा आवाज। आमतौर पर नाक में कंजेशन, गले में सूजन, डैमज टिश्यू, गंदन पर ज्यादा चर्बी या मुंह में स्ट्रक्चल प्रॉब्लम से सांस खुलकर नहीं आती, जिससे सोते समय तरह-तरह की आवाजें निकलती हैं।

कुछ लोगों को खरीटे आते हैं स्लीप अपेनिया के कारण। ये जन्मजात बीमारी है। इनके अलावा टॉन्सिलस में सूजन, तालू में उभार, बड़ी जीभ, गलत पोजिशन में सोना, ज्यादा शराब, स्लीपिंग फिक्स, सेडेटिव्स, मोटापा, एलर्जी और सर्दी से भी लोग खरीटे लेते हैं।

कैसे छुटकारा मिले खरीटों से?

खरीटों से मुक्ति के लिये पहले उपाय के रूप में सोते समय 4 इंच मोटा तकिया रखकर सोने की आदत डालें। हमेशा कवच लेकर सोयें, हो सके तो बांवी। इससे कंजेशन घटेगा और खरीटे कम होंगे।

कुछ लोगों को खरीटे आते हैं सांस की नली के टिश्यू ढीले होने से। इनकी रिपैरिंग के लिये प्रतिदिन 7 से 9 घंटे की नींद लें। जैसे-जैसे टिश्यू रिपेयर होंगे, खरीटे धीरे-धीरे कम हो जायेंगे।

कई बार गले और क्षमन नलिका में सूजन वजह होती है खरीटों की। इसे दूर करने के लिये रोजाना एक चम्मच शहद खायें। शहद की एंटी-इंफ्लेमेट्री प्रॉपर्टीज, सूजन घटाकर, खरीटे घटाने में मदद करती हैं। सूजन घटाकर, टिश्यू रिपेयर करने में जिंजर—गार्लिक भी कारगर है। खरीटे कम करने के लिये खाने में इनकी मात्रा बढ़ायें। अगर नॉन वेजीटेरियन हैं तो गर्दन की अतिरिक्त चर्बी हटाने के लिये रेड मीट खाना बंद कर मछली खाना शुरू करें। मछली में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, अतिरिक्त चर्बी हटाने में मदद करता है।ड्राइट में दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट कम करें। इनसे म्यूकस बनता है। नामूल दूध के बजाय हल्दी वाला दूध पियें। ये सांस की नली की सूजन घटाकर मांसु प्रवाह ठीक करने में मदद करता है। गले का कंजेशन घटाने के लिये चाय की जगह मिंट या ग्रीन टी पियें। कंजेशन होता है म्यूकस के कारण। शरीर से म्यूकस निकालने के लिये प्रतिदिन कम से कम तीन लीटर पानी पियें। खरीटे कम करने में आनकल नेजल रिस्पू का इस्तेमाल आम है, इससे सांस की नली में वायु प्रवाह बेहतर होता है। जिससे खरीटे कम आते हैं।

आलिया भट्ट की जिगर करेगी शानदार ओपनिंग, राजकुमार राव की फिल्म का होगा ऐसा कलेक्शन

आलिया भट्ट और वेदांग रैना स्टार फिल्म जिगरा 11 अक्टूबर को थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का मुक़ाबला राजकुमार राव और तुपित डिमरी की फिल्म विक्री विद्या का वो वाला वीडियो से होगा. दोनों फिल्मों को लेकर फैंस एक्साइटेटेड हैं, हालांकि कौन—सी फिल्म दर्शकों का दिल जीतेगी और किस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनेगा ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा. फिलहाल दोनों फिल्मों के ओपनिंग कलेक्शन के प्रॉिफ़िटेंट आंकड़े सामने आ गए हैं.ट्रेड एनालिस्ट रिमेश



मांकड़ की मानें तो जिगरा और विक्री विद्या का वो वाला वीडियो दोनों बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ठीक—ठीक

ऑफ़ माउथ वाली फिल्म होगी, वो बड़ी ओपनिंग करेगी.ट्रेड एनालिस्ट जतिंद्र सिंह का कहना है कि आलिया भट्ट की जिगरा पहले दिन शानदार कलेक्शन करेगी. फिल्म 75 प्रतिशत ज्यादा कमाएंगी और इसका कलेक्शन राजकुमार राव और तुपित डिमरी की कॉमेडी फिल्म विक्री विद्या का वो वाला वीडियो से काफी बेहतर होगा.

उन्कें मुताबिक जिगरा बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए और विक्री विद्या का वो वाला वीडियो 4 करोड़ रुपए से अपना खाता खोलेगी.

फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ जारी हुआ हिट 3 का दमदार टीजर

नेचुरल स्टार नानी इन दिनों अपनी हालिया फिल्म सांघोष्ठा सानिवायस की अपार सफलता का लुफ़ उठ रहे हैं। विवेक अथैया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रियंका मोहन और एसजे सुबिन ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं इस बीच अब नानी के अगली नई फिल्म पर दिलचस्प अपडेट सामने आया है। नानी की अगली फिल्म हिट 3 है, फिल्म की घोषणा के साथ इसका पहला पोस्टर और टीजर निर्माताओं ने जारी किया है। अभिनेता नानी की हिट 3 का पोस्टर और टीजर जारी किया गया। यह हिट फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है, जिसमें नानी एक नू प्रुलिस अधिकारी अर्जुन सरकार की भूमिका निभा रहे हैं। प्रोमो में नानी एक निर्दयी पुलिस वाला के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।

प्रसादम् में मिलावट भयावह और बेहद चिंताजनक

संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसी अनुच्छेद के आधार पर धार्मिक संस्था बनाने और आस्था के प्रचार का अधिकार भी मिला हुआ है और इसी अनुच्छेद के जरिए धार्मिक संस्थाओं को प्रशासित या प्रबंधित करने का अधिकार भी सभी धर्मों को मानने वालों को मिला है। तभी सवाल है कि कोई भी सरकार इस अनुच्छेद के अनुपालन में भेदभाव कैसे कर सकती है? अगर इस अनुच्छेद के अनुपालन में भेदभाव होता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 से मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सुब्रमणियन स्वामी ने अलग अलग अदालतों में कई याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने उत्तराखंड में चार धाम देवस्थानम प्रबंधन का गठन करके चार धाम और 51 अन्य धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी है।

दान का इस्तेमाल हिंदू धर्म के प्रचार, प्रसार में किया जाता है? वास्तविकता यह है कि मंदिरों में मिलने वाले चंदे और दान के एक हिस्से का इस्तेमाल तो मंदिर के प्रबंधन और प्रशासन के संचालन में होता है लेकिन धर्म के प्रचार में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है।यहां तक कि धार्मिक मान्यताओं और करोड़ों लोगों की आस्था को खड़ा के लिए भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अगर इसका उपयोग उचित तरीके से किया जाता तो क्या तिरपुति के मंदिर का अर्थनाम एक प्रयोगशाला नहीं होती, जिसमें पूजा सामग्री और प्रसादम् में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता नियमित रूप से जांची जाती? तिरपुति के मंदिर में हर साल औसतन 12 सौ करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। मंदिर के हजारों करोड़ रुपए बैंकों में जमा हैं। लेकिन मंदिर प्रबंधन के पास एक छोटी प्रयोगशाला नहीं है, जिसमें मंदिर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता जांची जा सके। यह कितने आश्चर्य की बात है ऐसा इसलिए है क्योंकि मंदिर प्रबंधन का करोड़ों हिंदुओं का अस्था और धार्मिक मान्यताओं से कोई सरोकार नहीं है।उन्कें लिए मंदिर का प्रबंधन वैसे ही है, जैसे किसी कंपनी या कल कारखाने का प्रबंधन होता है। वे मशीनी अंदाज में सरकारी कामकाज करते हैं। जिस तरह के चर्च का प्रबंधन ईसाई धर्मगुरु करते हैं या मस्जिदों का प्रबंधन वाले दान का इस्तेमाल ईसाई और इस्लाम धर्म के प्रचार में किया जाता है। लेकिन क्या हिंदू मंदिरों में मिलने वाले चंदे या

मंदिरों को मिलने वाले दान या चढ़ावे की रकम का ऑडिट हो, उसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। आमदनी और खर्च का ब्योरा सार्वजनिक किए जाने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मंदिर प्रबंधन को अर्थ और दान की रकम का उपयोग धार्मिक स्थल की शुचिता की रखा करने और धर्म के प्रचार प्रसार में करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए।

सरकारों को यह समझने की जरूरत है कि मंदिर कोई सरकारी या निजी संस्था नहीं हैं। हर मंदिर की एक मान्यता है। उसका इतिहास है। उसकी समृद्ध विरासत है। भारत में अनेक मंदिर ऐसे हैं, जिनकी स्थापना सैकड़ों, हजारों साल पहले हुई है। हजारों वर्षों से कोई एक धार्मिक समूह या एक परिवार उन मंदिरों का रखरखाव और प्रबंधन करता रहा है।सिर्फ इन आचार पर उनसे यह अधिकार नहीं छीना जा सकता

और बांग्लादेश एवं म्यांमार में पाए जाते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सरकार को फीचर फिल्म की श्रेणी में 32 विभिन्न भाषाओं की 309 फिल्में और गैर-फीचर श्रेणी में 17 भाषाओं की 128 फिल्में प्राप्त हुईं। फीचर फिल्म की श्रेणी में, स्वर्ण कमल पुरस्कार चार भारतीय भाषाओं की फिल्मों ने जीता। इनमें से एक फिल्म हरियाणवी भाषा में थी। इस श्रेणी में हिंदी और तमिल भाषा की पांच-पांच फिल्मों ने रजत कमल पुरस्कार जीता।

आमतौर पर ऐसे अन्य अवसरों पर आयोजित किए जाते हैं। यह प्रतिभा – कहानीकारों, कहानी कहने वालों और भाषा बोलती हैं, जिसे हर कोई समझता है। ‘श्री 420’ की गूंज जहां सभी भाषाओं में सुनाई दी, वहीं ‘रोजा’ को देशव्यापी प्रशंसा मिली। एम.एस. सथ्यू की ‘गरम हवा’ और मिमल रॉय की ‘दो बीधा जूमी’ जैसी फिल्मों में यद यह दिलता है कि संघर्ष, प्रेम एवं जीत की हिंदी की अति लोकप्रिय फिल्म या फिर विशुदु मराठी फिल्म, सिनेमा हमारे बीच की खाई को पाटने और हमें ‘सभी मतभेदों के बावजूद, हम एक हैं’ की याद दिलाते हुए अपनेपन की गहरी भावना को बढ़ावा देता है।

यह सिनेमा की सार्वभौमिकता ही है, जिसका उत्सव राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। यह आंखों को चकाकौंस कर देने वाला एवं बेतहाशा आकर्षण पैदा करने वाला कार्यक्रम नहीं है, जो

आमतौर पर ऐसे अन्य अवसरों पर आयोजित किए जाते हैं। यह प्रतिभा – कहानीकारों, कहानी कहने वालों और भाषा बोलती हैं, जिसे हर कोई समझता है। ‘श्री 420’ की गूंज जहां सभी भाषाओं में सुनाई दी, वहीं ‘रोजा’ को देशव्यापी प्रशंसा मिली। एम.एस. सथ्यू की ‘गरम हवा’ और मिमल रॉय की ‘दो बीधा जूमी’ जैसी फिल्मों में यद यह दिलता है कि संघर्ष, प्रेम एवं जीत की हिंदी की अति लोकप्रिय फिल्म या फिर विशुदु मराठी फिल्म, सिनेमा हमारे बीच की खाई को पाटने और हमें ‘सभी मतभेदों के बावजूद, हम एक हैं’ की याद दिलाते हुए अपनेपन की गहरी भावना को बढ़ावा देता है।

यह सिनेमा की सार्वभौमिकता ही है, जिसका उत्सव राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। यह आंखों को चकाकौंस कर देने वाला एवं बेतहाशा आकर्षण पैदा करने वाला कार्यक्रम नहीं है, जो

आमतौर पर ऐसे अन्य अवसरों पर आयोजित किए जाते हैं। यह प्रतिभा – कहानीकारों, कहानी कहने वालों और भाषा बोलती हैं, जिसे हर कोई समझता है। ‘श्री 420’ की गूंज जहां सभी भाषाओं में सुनाई दी, वहीं ‘रोजा’ को देशव्यापी प्रशंसा मिली। एम.एस. सथ्यू की ‘गरम हवा’ और मिमल रॉय की ‘दो बीधा जूमी’ जैसी फिल्मों में यद यह दिलता है कि संघर्ष, प्रेम एवं जीत की हिंदी की अति लोकप्रिय फिल्म या फिर विशुदु मराठी फिल्म, सिनेमा हमारे बीच की खाई को पाटने और हमें ‘सभी मतभेदों के बावजूद, हम एक हैं’ की याद दिलाते हुए अपनेपन की गहरी भावना को बढ़ावा देता है।

यह सिनेमा की सार्वभौमिकता ही है, जिसका उत्सव राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। यह आंखों को चकाकौंस कर देने वाला एवं बेतहाशा आकर्षण पैदा करने वाला कार्यक्रम नहीं है, जो

आमतौर पर ऐसे अन्य अवसरों पर आयोजित किए जाते हैं। यह प्रतिभा – कहानीकारों, कहानी कहने वालों और भाषा बोलती हैं, जिसे हर कोई समझता है। ‘श्री 420’ की गूंज जहां सभी भाषाओं में सुनाई दी, वहीं ‘रोजा’ को देशव्यापी प्रशंसा मिली। एम.एस. सथ्यू की ‘गरम हवा’ और मिमल रॉय की ‘दो बीधा जूमी’ जैसी फिल्मों में यद यह दिलता है कि संघर्ष, प्रेम एवं जीत की हिंदी की अति लोकप्रिय फिल्म या फिर विशुदु मराठी फिल्म, सिनेमा हमारे बीच की खाई को पाटने और हमें ‘सभी मतभेदों के बावजूद, हम एक हैं’ की याद दिलाते हुए अपनेपन की गहरी भावना को बढ़ावा देता है।

यह सिनेमा की सार्वभौमिकता ही है, जिसका उत्सव राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। यह आंखों को चकाकौंस कर देने वाला एवं बेतहाशा आकर्षण पैदा करने वाला कार्यक्रम नहीं है, जो

हैदराबाद में भी हुए फ्लॉप तो टीम इंडिया से झ्रंप हो सकते हैं

नईदिल्ली, भारतीय क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा और आखिरी टी 20 मैच 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला है. शुरुआती 2 मैच जीत टीम इंडिया सीरीज जीत चुकी है. तीसरा मैच उन खिलाड़ियों का तराशन का है जिन्हें पहले 2 मैच में मौका नहीं मिला है. साथ ही उन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी नजर होगी जिन्का प्रदर्शन पिछले 2 मैचों में अच्छ नहीं रहा है. तीसरे मैच में भी अगर ये खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर पाते है तो फिर आगे के लिए उनकी रह मुश्किल हो सकती है. बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी 20 में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजु सेमसन और अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन पर सबकी नजरे रहेंगी. इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम के लिए पिछले दोनों मैचों में पारी की शुरुआत की है लेकिन दोनों ही मैचों में ये फ्लॉप रहे है. इसलिए तीसरा मैच इन दोनों के लिए काफी अहम और निर्णायक रहने वाला है.

टीम इंडिया के बाद अब मुंबई के लिए धमाल मचाएंगे सूर्यकुमार यादव

नईदिल्ली, भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है. वे आने वाले रणजी ट्रॉफी सीजन में मुंबई के लिए खेल सकते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक सूर्या सिलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे. मुंबई और महाराष्ट्र के बीच 18 अक्टूबर से मैच खेला जाना है. सूर्या इस मुक़ाबले के लिए मैदान पर उतर सकते हैं. वे फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच खेलें जा रही टी20 सीरीज का हिस्सा हैं. सूर्या ने इस सीरीज के पहले मैच में विस्फोटक प्रदर्शन किया था. रिपोर्ट के मुताबिक सूर्या मुंबई के लिए उपलब्ध रहेंगे. उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को बतलाया है कि वे रणजी ट्रॉफी के सिलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे. मुंबई सेकेंड गउंड लीग मुक़ाबले के लिए 18 अक्टूबर को मैदान पर उतरेगी. सूर्या इससे पहले ही फ्री हो जाएंगे. वे अभी भारत-बांग्लादेश टी20 सीरीज का हिस्सा हैं. इस सीरीज का आखिरी मैच 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला



मंदिरों को मिलने वाले दान या चढ़ावे की रकम का ऑडिट हो, उसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। आमदनी और खर्च का ब्योरा सार्वजनिक किए जाने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मंदिर प्रबंधन को अर्थ और दान की रकम का उपयोग धार्मिक स्थल की शुचिता की रखा करने और धर्म के प्रचार प्रसार में करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए।

सरकारों को यह समझने की जरूरत है कि मंदिर कोई सरकारी या निजी संस्था नहीं हैं। हर मंदिर की एक मान्यता है। उसका इतिहास है। उसकी समृद्ध विरासत है। भारत में अनेक मंदिर ऐसे हैं, जिनकी स्थापना सैकड़ों, हजारों साल पहले हुई है। हजारों वर्षों से कोई एक धार्मिक समूह या एक परिवार उन मंदिरों का रखरखाव और प्रबंधन करता रहा है।सिर्फ इन आचार पर उनसे यह अधिकार नहीं छीना जा सकता

और बांग्लादेश एवं म्यांमार में पाए जाते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सरकार को फीचर फिल्म की श्रेणी में 32 विभिन्न भाषाओं की 309 फिल्में और गैर-फीचर श्रेणी में 17 भाषाओं की 128 फिल्में प्राप्त हुईं। फीचर फिल्म की श्रेणी में, स्वर्ण कमल पुरस्कार चार भारतीय भाषाओं की फिल्मों ने जीता। इनमें से एक फिल्म हरियाणवी भाषा में थी। इस श्रेणी में हिंदी और तमिल भाषा की पांच-पांच फिल्मों ने रजत कमल पुरस्कार जीता।

आमतौर पर ऐसे अन्य अवसरों पर आयोजित किए जाते हैं। यह प्रतिभा – कहानीकारों, कहानी कहने वालों और भाषा बोलती हैं, जिसे हर कोई समझता है। ‘श्री 420’ की गूंज जहां सभी भाषाओं में सुनाई दी, वहीं ‘रोजा’ को देशव्यापी प्रशंसा मिली। एम.एस. सथ्यू की ‘गरम हवा’ और मिमल रॉय की ‘दो बीधा जूमी’ जैसी फिल्मों में यद यह दिलता है कि संघर्ष, प्रेम एवं जीत की हिंदी की अति लोकप्रिय फिल्म या फिर विशुदु मराठी फिल्म, सिनेमा हमारे बीच की खाई को पाटने और हमें ‘सभी मतभेदों के बावजूद, हम एक हैं’ की याद दिलाते हुए अपनेपन की गहरी भावना को बढ़ावा देता है।

आमतौर पर ऐसे अन्य अवसरों पर आयोजित किए जाते हैं। यह प्रतिभा – कहानीकारों, कहानी कहने वालों और भाषा बोलती हैं, जिसे हर कोई समझता है। ‘श्री 420’ की गूंज जहां सभी भाषाओं में सुनाई दी, वहीं ‘रोजा’ को देशव्यापी प्रशंसा मिली। एम.एस. सथ्यू की ‘गरम हवा’ और मिमल रॉय की ‘दो बीधा जूमी’ जैसी फिल्मों में यद यह दिलता है कि संघर्ष, प्रेम एवं जीत की हिंदी की अति लोकप्रिय फिल्म या फिर विशुदु मराठी फिल्म, सिनेमा हमारे बीच की खाई को पाटने और हमें ‘सभी मतभेदों के बावजूद, हम एक हैं’ की याद दिलाते हुए अपनेपन की गहरी भावना को बढ़ावा देता है।

यह सिनेमा की सार्वभौमिकता ही है, जिसका उत्सव राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। यह आंखों को चकाकौंस कर देने वाला एवं बेतहाशा आकर्षण पैदा करने वाला कार्यक्रम नहीं है, जो

आमतौर पर ऐसे अन्य अवसरों पर आयोजित किए जाते हैं। यह प्रतिभा – कहानीकारों, कहानी कहने वालों और भाषा बोलती हैं, जिसे हर कोई समझता है। ‘श्री 420’ की गूंज जहां सभी भाषाओं में सुनाई दी, वहीं ‘रोजा’ को देशव्यापी प्रशंसा मिली। एम.एस. सथ्यू की ‘गरम हवा’ और मिमल रॉय की ‘दो बीधा जूमी’ जैसी फिल्मों में यद यह दिलता है कि संघर्ष, प्रेम एवं जीत की हिंदी की अति लोकप्रिय फिल्म या फिर विशुदु मराठी फिल्म, सिनेमा हमारे बीच की खाई को पाटने और हमें ‘सभी मतभेदों के बावजूद, हम एक हैं’ की याद दिलाते हुए अपनेपन की गहरी भावना को बढ़ावा देता है।

यह सिनेमा की सार्वभौमिकता ही है, जिसका उत्सव राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। यह आंखों को चकाकौंस कर देने वाला एवं बेतहाशा आकर्षण पैदा करने वाला कार्यक्रम नहीं है, जो

आमतौर पर ऐसे अन्य अवसरों पर आयोजित किए जाते हैं। यह प्रतिभा – कहानीकारों, कहानी कहने वालों और भाषा बोलती हैं, जिसे हर कोई समझता है। ‘श्री 420’ की गूंज जहां सभी भाषाओं में सुनाई दी, वहीं ‘रोजा’ को देशव्यापी प्रशंसा मिली। एम.एस. सथ्यू की ‘गरम हवा’ और मिमल रॉय की ‘दो बीधा जूमी’ जैसी फिल्मों में यद यह दिलता है कि संघर्ष, प्रेम एवं जीत की हिंदी की अति लोकप्रिय फिल्म या फिर विशुदु मराठी फिल्म, सिनेमा हमारे बीच की खाई को पाटने और हमें ‘सभी मतभेदों के बावजूद, हम एक हैं’ की याद दिलाते हुए अपनेपन की गहरी भावना को बढ़ावा देता है।



जाएगा. भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ मौजूदा सीरीज के बाद न्यूज़ीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. सूर्या इससे पहले ही फ्री हो जाएंगे. वे अभी भारत-बांग्लादेश टी20 सीरीज का हिस्सा हैं. इस सीरीज का आखिरी मैच 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई सेलेक्शन कमेटी का किया ऐलान

नई दिल्ली, पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ पापे और 47 सों से मिली करारी हार के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने नई सेलेक्शन कमेटी का ऐलान किया है। इसमें पूर्व टेस्ट क्रिक्रेट अन्वीष ज़ावर, अजहर अली, टेस्ट अंपायर अलीम खान और विश्वेक्षक हसन चौमा को शामिल किया गया है। आनन फानन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब इसका अंतर टीम पर किना पड़ता है, वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। यह मोहम्मद यूसुफ के फैसल से इस्तीफा देने के ठीक 10 दिन बाद हुआ है,



नई दिल्ली, पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ पापे और 47 सों से मिली करारी हार के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने नई सेलेक्शन कमेटी का ऐलान किया है। इसमें पूर्व टेस्ट क्रिक्रेट अन्वीष ज़ावर, अजहर अली, टेस्ट अंपायर अलीम खान और विश्वेक्षक हसन चौमा को शामिल किया गया है। आनन फानन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब इसका अंतर टीम पर किना पड़ता है, वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। यह मोहम्मद यूसुफ के फैसल से इस्तीफा देने के ठीक 10 दिन बाद हुआ है,

नई दिल्ली, पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ पापे और 47 सों से मिली करारी हार के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने नई सेलेक्शन कमेटी का ऐलान किया है। इसमें पूर्व टेस्ट क्रिक्रेट अन्वीष ज़ावर, अजहर अली, टेस्ट अंपायर अलीम खान और विश्वेक्षक हसन चौमा को शामिल किया गया है। आनन फानन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब इसका अंतर टीम पर किना पड़ता है, वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। यह मोहम्मद यूसुफ के फैसल से इस्तीफा देने के ठीक 10 दिन बाद हुआ है,

नई दिल्ली, पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ पापे और 47 सों से मिली करारी हार के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने नई सेलेक्शन कमेटी का ऐलान किया है। इसमें पूर्व टेस्ट क्रिक्रेट अन्वीष ज़ावर, अजहर अली, टेस्ट अंपायर अलीम खान और विश्वेक्षक हसन चौमा को शामिल किया गया है। आनन फानन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब इसका अंतर टीम पर किना पड़ता है, वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। यह मोहम्मद यूसुफ के फैसल से इस्तीफा देने के ठीक 10 दिन बाद हुआ है,

नई दिल्ली, पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ पापे और 47 सों से मिली करारी हार के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने नई सेलेक्शन कमेटी का ऐलान किया है। इसमें पूर्व टेस्ट क्रिक्रेट अन्वीष ज़ावर, अजहर अली, टेस्ट अंपायर अलीम खान और विश्वेक्षक हसन चौमा को शामिल किया गया है। आनन फानन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब इसका अंतर टीम पर किना पड़ता है, वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। यह मोहम्मद यूसुफ के फैसल से इस्तीफा देने के ठीक 10 दिन बाद हुआ है,

नई दिल्ली, पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ पापे और 47 सों से मिली करारी हार के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने नई सेलेक्शन कमेटी का ऐलान किया है। इसमें पूर्व टेस्ट क्रिक्रेट अन्वीष ज़ावर, अजहर अली, टेस्ट अंपायर अलीम खान और विश्वेक्षक हसन चौमा को शामिल किया गया है। आनन फानन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब इसका अंतर टीम पर किना पड़ता है, वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। यह मोहम्मद यूसुफ के फैसल से इस्तीफा देने के ठीक 10 दिन बाद हुआ है,

नई दिल्ली, पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ पापे और 47 सों से मिली करारी हार के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने नई सेलेक्शन कमेटी का ऐलान किया है। इसमें पूर्व टेस्ट क्रिक्रेट अन्वीष ज़ावर, अजहर अली, टेस्ट अंपायर अलीम खान और विश्वेक्षक हसन चौमा को शामिल किया गया है। आनन फानन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब इसका अंतर टीम पर किना पड़ता है, वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। यह मोहम्मद यूसुफ के फैसल से इस्तीफा देने के ठीक 10 दिन बाद हुआ है,

नई दिल्ली, पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ पापे और 47 सों से मिली करारी हार के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने नई सेलेक्शन कमेटी का ऐलान किया है। इसमें पूर्व टेस्ट क्रिक्रेट अन्वीष ज़ावर, अजहर अली, टेस्ट अंपायर अलीम खान और विश्वेक्षक हसन चौमा को शामिल किया गया है। आनन फानन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब इसका अंतर टीम पर किना पड़ता है, वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। यह मोहम्मद यूसुफ के फैसल से इस्तीफा देने के ठीक 10 दिन बाद हुआ है,



और यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान का सभी प्रारूपों में प्रदर्शन सबसे खराब है। यह तिकड़ी पूर्व खिलाड़ी अमद



जाएगा. भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ मौजूदा सीरीज के बाद न्यूज़ीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. सूर्या इससे पहले ही फ्री हो जाएंगे. वे अभी भारत-बांग्लादेश टी20 सीरीज का हिस्सा हैं. इस सीरीज का आखिरी मैच 12 अक्टूबर से टेस्ट

धार्मिक मान्यताएं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई मान्यताएं वर्तमान समय के सामाजिक मूल्यों के संगत नहीं है। फिर भी उनमें बदलाव का फैसला सरकारी या अदालती आदेश से किया जाना क्या उचित है? सबरीमाला मंदिर में एक निश्चित आयु की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। लेकिन छुआछूत और समानता के अधिकार का हवाला देते हुए न्यायालय द्वारा इस पूजा परंपरा को समाप्त करने का आदेश दिया गया। क्या इस तरह के आदेश अन्य धर्मों में प्रचलित मान्यताओं को समाप्त करने के लिए सरकार के स्तर से या न्यायपालिका के स्तर से दिए जा सकते हैं? ध्यान रहे सामाजिक या पारिवारिक मान्यताएं अपनी जगह हैं। उनको समय के हिसाब से बदला जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक के नियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं इस दायरे में नहीं आती हैं।बहरहाल, तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट का मामला समूचे हिंदू समाज का

एक नजर

पैथोलॉजी किंग में आयुष और आशुतोष ने मारी बाजी

श्रीनगर गढ़वाल : उत्तराखंड प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के बीच हुई राज्य स्तरीय पैथोलॉजी किंग प्रतियोगिता में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस बेच 2022 के छात्र आयुष सिंह रावत और आशुतोष सैनी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। पहले स्थान पर एम्स ऋषिकेश के छात्र रहे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मेडिकल कॉलेज के दोनों छात्रों द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सीएमएस रावत ने विजेता छात्रों के साथ ही पैथोलॉजी विभाग की एचओडी समेत पूरी टीम को बधाई दी है। मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग की एचओडी डॉ. गजाला रिजवी ने कहा कि स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा किंग में दूसरा स्थान प्राप्त कर मेडिकल कॉलेज का नाम रोशन किया है। (एजेंसी)

अतिथि शिक्षकों ने जताया आभार

श्रीनगर गढ़वाल : गढ़वाल विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने पर शिक्षकों ने आभार व्यक्त किया है। लम्बे समय से अतिथि शिक्षकों मानदेय बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। संकायाध्यक्षों ने बैठक आहूत कर अतिथि शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव बनाया था। जिसके बाद गढ़वाल विवि की कुलपति प्रो. अनुरूपानी नौटियाल ने अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़कर 35 हजार रुपये करने की स्वीकृति दी। अतिथि शिक्षकों ने गढ़वाल विवि के कुलसचिव, वित्त अधिकारी सहित छात्रसंघ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर डा. योगम्बर सिंह नेगी, डा. रविन्द्र रावत, डा. आलोक नेगी, डा. रोहित ममगाई, डा. संतोष रावत, डा. सुभाष आगरी, डा. राधा बल्लभ कुन्याल, डा. सुग्रील सिंह शाह, डा. अंकित रावत, डा. मुरिेश चंद्र भट्ट, डा. ओपेन्द्र गणा, डा. विवेक सिंह, डा. चंडी प्रसाद सेमवाल, डा. राहुल ठाकुर, डा. जगमोहन रावत सहित आदि ने गढ़वाल विवि के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। (एजेंसी)

गाड़ियां शादियों में, यात्री परेशान

रुद्रप्रयाग : नीते दो दिनों में अत्यधिक शादियों के चलते लोगों को बाजारों में समय पर गाड़ियां नहीं मिल पा रही है। ऋषिकेश, देहरादून, केदारनाथ सहित ब्रांच सड़कों पर जाने वाले यात्री और क्षेत्रीय जनता को मुश्किलें उठानी पड़ रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि विजयदशमी के मौके पर शादी-विवाह काफी संख्या में हुए जिससे यह दिक्कत आई। नयात्र शुरू होते ही जनपद के सभी कस्बों में चहल-पहल शुरू हो गई। एक ओर लोगों को अपने गंतव्य जाने के लिए समय पर वाहन नहीं मिले, वहीं यात्रियों को भी केदारनाथ, बदरीनाथ आदि स्थानों पर जाने में दिक्कत हुई। रुद्रप्रयाग नगर में सुबह भले ही कुछ वाहन मिल रहे हैं, किंतु इसके बाद वाहनों के लिए लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ी। घंटों इंतजार के बाद किसी तरह कोई वाहन मिल पा रहा है। स्थानीय निवासी गणेश नौटियाल, रोशन सेमवाल, तरुण पंवार, गोपी रैथान्य आदि ने कहा कि शादी-विवाह अधिक होने के कारण बाजारों में वाहनों की कमी महसूस हो रही है। अधिकांश वाहन शादी-विवाह के चलते बुक है इसलिए ब्रांच सड़कों के साथ ही प्रमुख राजमार्गों पर वाहनों की परेशानियां पैदा हो रही हैं। उन्होंने बताया कि रविवार से यह स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। (एजेंसी)

पुलिस कर्मी तत्परता व संवेदनशीलता से करें काम

नई टिहरी : सीओ आंसिन जोशी ने थाना छाम का अर्धवार्षिक निरीक्षण करते हुए लंबित प्रकरणों को तत्परता से निपटने के निर्देश दिए। थाने को अपडेट रखने के साथ ही पुलिस कर्मियों की समस्याओं के निराकरण को लेकर भी प्रार्थमिकता बनाये रखने को भी कहा। सीओ जोशी ने थाना छाम में पहुंचकर सर्वप्रथम सलामी गार्ड का निरीक्षण किया। उसके बाद आपदा उपकरणों, सरकारी संपत्ति, माल मुकदमाती, आर्म्स-पम्पूनेशन का निरीक्षण कर थाने के कार्मिकों से शखों की हैंडलिंग, आवश्यकता के समय बेहतर प्रयोग एवं आपदा उपकरणों के दैवीय आपदा की स्थिति में कुशल प्रयोग करने को निर्देशित किया। सीओ ने थाना परिसर के भोजनालय, थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, कर्मचारी बैरक, महिला एवं शिशु सहायता पटल का भ्रमण भी किया। माल गृह का निरीक्षण करते हुए न्यायालय के निर्देशानुसार निस्तरण को कहा। थानाध्यक्ष को शिकायतों, आरटीआई व सेवा के अधिकार के मामलों के त्वरित निस्तरण को कहा। न्यायलय से प्राप्त वारंटियों के शत-प्रतिशत तामील को भी निर्देशित किया।

शादी सीजन में जाम हो रहा राष्ट्रीय राजमार्ग, दुर्घटनाओं का भी अंदेशा

●कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह-जगह बनें हैं डेंजर जोन ●वाहनों को निकलने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिलने के कारण बिगड़ रही व्यवस्था

जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : शादी सीजन में बढ़हाल राष्ट्रीय राजमार्ग आवागमन करने वालों के लिए चुनौती बन रहा है। हालत यह है कि अचानक बढ़े वाहनों के दबाव के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों जाम की स्थिति बन रही है। डेंजर जोन में वाहनों को निकलने के लिए पर्याप्त मार्ग नहीं मिल पा रहा है। शनिवार को भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही। जाम खुलवाने के लिए पुलिस को भी पसीना बहाना पड़ा। मालूम हो कि वर्षा काल के दौरान कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग बढ़हाल हो गया था। 15 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह-जगह डेंजर

जोन बन गए थे। पूरे वर्ष भर इसी तरह यातायात चलता रहा है। लेकिन, वर्तमान में शादी सीजन प्रारंभ होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग बढ़हाल स्थिति में ही पड़ा हुआ है। ऐसे में कई स्थानों पर भारी वाहनों को निकलने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा। जिससे जाम की स्थिति बन रही है। रिखणीखाल निवासी मोहन रावत ने बताया कि वह शनिवार को कोटद्वार अपने रिस्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए आ रहे थे। लेकिन, दुगड्डा से कोटद्वार पहुंचने में उन्हें दो घंटे से अधिक का समय लग गया। दुर्गा मंदिर के समीप बढ़हाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर सबसे बुरी स्थिति बनी हुई है।



राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा जाम

दुर्घटनाओं का अंदेशा

राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर सड़क का हिस्सा ही गांवब हो चुका है। साथ ही जगह-जगह पहाड़ी से पत्थर गिरने का भी डर बना हुआ है। ऐसे में कब बड़ा हादसा हो जाएं कुछ

कहा नहीं जा सकता। होना तो यह चाहिए था कि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत करवाकर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाता। लेकिन, विभाग स्वयं ही नींद में सोया हुआ है।

15 अक्टूबर तक सड़कें गड्ढा मुक्त करें : डीएम

चमोली : चमोली जिले में सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे पड़े हैं। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए चमोली जिले में 187.45 किलोमीटर पैचवर्क का लक्ष्य रखा है। अभी तक 79.45 किलोमीटर सड़क पर ही पैचवर्क हो सका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अनग-अलग सड़कों पर 24 किलोमीटर सड़कों पर पैकिंग वर्क चल रहा है।

निर्देशित किया कि संबंधित एसडीएम के साथ एक फिर से हड़िये का संयुक्त निरीक्षण करें। जहां पर भी पैचवर्क की आवश्यकता है और सड़क के ऊपर कहीं लुज वोल्डर है, उसके तत्काल हटवाए जाएं। सभी डिविजन भूखलन प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत तकनीकी सर्वे कराते हुए उसके ट्रीटमेंट के लिए कार्ययोजना तैयार करें। अधिशासी अभिभावक राजवीर सिंह चौहान ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के सभी 6 डिविजनों में 187.45 किलोमीटर पैचवर्क का लक्ष्य है। जिसमें से 79.45 किलोमीटर मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि जिन डिविजनों ने पैचवर्क का कार्य अभी शेष है। वो हर हल में 15 अक्टूबर तक पूरा करें। कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। कहा कि इसमें लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने एनएचआईडीसीएल के अधिकारियों को

नशे में परिजनों से झगड़ रहा हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : सतपुली थाना पुलिस ने शराब के नशे में परिजनों संग झगड़ रहे हिस्ट्रीशीटर को शांतिनग के आरोपी में गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थानाध्यक्ष सतपुली दीपक तिवारी के अनुसार कुकरेती बंड निवासी हिस्ट्रीशीटर मनोज कुमार ने परिजनों संग लड़ाई-झगड़ा कर रहा था। आरोपी के इस आचरण से आस पड़ोस के लोग भी परेशान हो रहे थे। पुलिस पर पहुंची पुलिस ने उसे समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह और अधिक उत्तेजित होकर परिवार के साथ झगड़ा कर शांति व्यवस्था को भंग करने लगा। जिस पर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और उसके खिलाफ बीएमएस की संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। (एजेंसी)

आदित्य अग्रवाल बने लियो क्लब के अध्यक्ष

जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : लायंस क्लब कोटद्वार डिभिन्टी की ओर से लियो क्लब का गठन किया गया। जिसमें आदित्य अग्रवाल को अध्यक्ष व रितिक भाटिया को सचिव की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान सदस्यों ने एकजुट होकर संगठन कार्यवाई की जा रही है। थानाध्यक्ष सतपुली दीपक तिवारी के अनुसार कुकरेती बंड निवासी हिस्ट्रीशीटर मनोज कुमार ने परिजनों संग लड़ाई-झगड़ा कर रहा था। आरोपी के इस आचरण से आस पड़ोस के लोग भी परेशान हो रहे थे। पुलिस पर पहुंची पुलिस ने उसे समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह और अधिक उत्तेजित होकर परिवार के साथ झगड़ा कर शांति व्यवस्था को भंग करने लगा। जिस पर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और उसके खिलाफ बीएमएस की संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। (एजेंसी)



आयोजित कार्यक्रम में मौजूद नवनियुक्त पदाधिकारी

ला अवधेश चमोली और ला भीम सिंह को लियो का ऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। क्लब अध्यक्ष ला राजेश बत्रा, सचिव ला रोहित बत्रा, लियो चेयरपर्सन ला भीम सिंह, द्वारा लायंस डिस्ट्रिक्ट पिन पहना कर नवनियुक्त लियो टीम को

सम्मानित किया गया। इस मौके पर ला हितेश गोयल, ला प्रशान्त सेठगी, ला ब्रिजेश, ला अमित जैन, ला अरविंद बंसल, ला डॉ. अशीष अग्रवाल, ला प्रतीक अग्रवाल, ला सारांश बंसल, ला इंद्रेश भाटिया, ला आशीष अग्रवाल, ला

विशु अग्रवाल, ला मनु गर्ग, लियो अक्षत जैन, लियो नितिन बत्रा, लियो अपूर्व अग्रवाल, लियो आराध्या अग्रवाल, लियो आयुष बंसल, लियो वैभव अग्रवाल, लियो ऋषभ भाटिया, लियो संस्कार गोयल, लियो आदि मौजूद रहे।

28 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी को जेल भेजा

चमोली : कर्णप्रयाग पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में उत्तर प्रदेश के एक युवक को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया गया है। थाने से मिली जानकारी के अनुसार 31 जुलाई को पीएमजीएसवाई खंड लेनिवि कर्णप्रयाग के अपर सहायक अभियंता विपिन नौटियाल ने तहरीर दी कि उन्होंने दो माह पूर्व फेसबुक पर शेयर मार्केट से संबंधित विज्ञापन के नीचे दिये गए एक लिंक पर क्लिक किया। जिसके उपरान्त उन्हें बताया गया कि यह झुप गौव पोंडार ने अंतर्राष्ट्रीय स्टाक प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभागिता सुदृढ़ करने के लिये अंतर्र कुमार निवासी 04/149 गन्नाला प्राण करने के लिये बनाया गया है। कुछ समय बाद अंकित सिंह नाम के एक अन्य व्यक्ति ने उन्हें मैसेज करके

बताया कि वे गौव पोंडार के अक्सिस्टेंट है और वे लोग बजाज फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड में कार्यरत है तथा अपने 100 लाख से ज्यादा सदस्य होने की खुशी में अपने सदस्यों में 100 करोड़ रुपये वितरित कर रहा है, जिसमें पांच हजार रुपये से लेकर एक करोड़ तक प्राप्त कर सकते। इस स्कीम में भाग लेने के लिये वादी को बजाज ऐप का लिंक भेजकर रजिस्ट्र करने को कहा गया। फिर धनराशि जमा करने के नाम पर उनके साथ लगभग 28 लाख की धोखाधड़ी हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई और 23 वर्षीय आरोपी शशि कुमार पुत्र प्रवेन्द्र कुमार निवासी 04/149 गन्नाला पृथ्वीनाथ रामबाबू हरितवाली गली थाना शाहनज उतर प्रदेश को दृष्टा देख कर 10 अक्टूबर को इंद्रानगर थाना अटलबंध भरतपुर राजस्थान गिरफ्तार किया गया।

बुराई पर हुई अच्छाई की जीत, धू-धू कर जला रावण

कोटद्वार व आसपास के क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया विजयादशमी का पर्व ग्रास्टनगंज में दशहरा मेला देखने के लिए उमड़ी शहरवासियों की भीड़



कोटद्वार के ग्रास्टनगंज में जलता रावण का पुतला

कोटद्वार के ग्रास्टनगंज में उमड़ी लोगों की भीड़



कोटद्वार के ग्रास्टनगंज में रामलीला का मंचन करते कलाकार।

कोटद्वार : न्याय की अन्याय पर, सदाचार की दुराचार पर, धर्म की अधर्म पर, गर्व की अहंकार पर, अच्छाई की बुराई पर, सत्य को असत्य पर और

अंधकार पर उजाले के विजय का प्रतीक विजय दशमी का पर्व शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ग्रास्टनगंज में आयोजित दशहरा मेले में बुराई के प्रतीक रावण

के पुतले का दहन किया गया। पूरा मैदान जय श्री राम के जयकारों से गुंज उठा। इसके पूर्व राम-रावण के भयंकर युद्ध का भी दर्शकों ने आनंद उठाया।

ग्रास्टनगंज में आयोजित दशहरे मेले में शनिवार सुबह से ही दुकानों व फड़ सजने लगी। इस दौरान लोगों की मेले में खूब चहल पहल रही। शाम ढलने के साथ ही ग्रास्टनगंज स्थित दशहरा मेला स्थल खचाखच भर गया। देर शाम नगर क्षेत्र दो अलग-अलग रामलीला कमेटीयों की ओर से बनाए गए रावण के दो अलग-अलग पुतलों का दहन किया गया। इससे पूर्व भगवान श्रीराम और दशानन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो रामलीला मैदान में पांच रखने भर की जगह नहीं बची थी।

राम-रावण युद्ध के बीच-बीच में जय श्रीराम के जयकारों लगते रहे। भगवान राम ने जैसे ही रावण के नाभिकूंड में तीर मारा तो रावण का विशालकाय पुतला धू-धू कर जलने लगा पुतला दहन को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। वहीं पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। मेले को लेकर सबसे अधिक उत्साह बच्चों में बना हुआ था।

कर्मचारियों ने किया एनपीएस रावण का पुतला दहन

जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर शनिवार को पूरे प्रदेश में ओपीएस बहाली के लिए एनपीएस रावण का पुतला दहन किया गया है। पौड़ी में प्रांतीय अध्यक्ष जयदीप रावत, प्रदेश प्रांतीय महामंत्री सीताराम पोखरियाल के निर्देशन में पौड़ी तहसील के समीप एनपीएस रावण का पुतला दहन किया गया। कर्मचारियों ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि वह शीघ्र ही प्रदेश में ओपीएस बहाल करें नहीं तो इस प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी चुप बैठने वाला नहीं है और उन्होंने अपनी मांग को पूरा करने के लिए संकल्प लिया है। प्रदेश प्रांतीय महामंत्री सीताराम



पौड़ी तहसील के समीप एनपीएस रावण का पुतला दहन करते हुए कर्मचारी।

पोखरियाल ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरा करने के लिए प्रदेश में निर्धारित किया गया था, कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर रावण का पुतला जला कर सरकार और शासन से मांग की

के अवसर पर रावण का पुतला दहन किया जाना है। इसलिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर रावण का पुतला जला कर सरकार और शासन से मांग की

बच्चों व महिलाओं की प्रस्तुतियों ने मोहा मन



कार्यक्रम में बेहतर प्रस्तुति देने वाले बच्चों को सम्मानित करते सदस्य

गिलरा, अनीत चावला, विपिन बक्शी, अनिल भोला, विजय कुमार मांहेक्षी, कोषाध्यक्ष सचिन गोयल, कार्यक्रम संयोजक अमित अग्रवाल, कुलदीप अग्रवाल, प्रतिभा गुप्ता, उपसचिव विजय

कुमार मांहेक्षी जूनियर, शरत चन्द्र गुप्ता, मनीष अग्रवाल, संदेश अग्रवाल, ज्योति स्वरूप अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, ऋषि ऐरन, धीरजभर बख्वाण, गोपाल बंसल आदि मौजूद रहे।

रावण-अंगद संवाद रहा आकर्षण का केंद्र

जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : रामलीला मंचन के नौवें दिन शुक्रवार की देर शाम को रावण-अंगद संवाद, मंदोदरी-रावण संवाद, रावण-विभीषण की भूमिका में आशुतोष नेथानी का गायन और अभिनय यादगार रहा। उनके सशक्त अभिनय ने मंचन पर चार चांद लगा दिए। इस मौके पर मुख्य अतिथि आह्वान संस्था की अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल ने कहा कि इस अयोग्य को शुरुआत में भूमिका में गोपाल नेगी, अंगद की भूमिका में हिमांशु चौहान और मंदोदरी की भूमिका में प्रीती के अभिनय की दर्शकों ने खूब तारीफ की। मेघनाद की भूमिका में अंकित, नेगी का अभिनय शानदार रहा।

बहुगुणा, आरुषि रावत ने शानदार प्रस्तुति दी। रामलीला में श्रीराम हनुमान वार्ता, सेतुबंध रामेश्वर निर्माण, राम समुद्र संवाद, मंदोदरी-रावण संवाद, रावण-विभीषण संवाद राम द्वारा विभीषण का राजतिलक, अंगद रावण संवाद, मेघनाद लक्ष्मण युद्ध, लक्ष्मण शक्ति, राम विलाप, सुषेण वैद्य का आना, हनुमान का संजीवनी वृटी लाना, लक्ष्मण की मूर्छा टूटना तक मंचित की गई। समुद्रदेव की भूमिका में गोपाल नेगी, अंगद की भूमिका में हिमांशु चौहान और मंदोदरी की भूमिका में प्रीती के अभिनय की दर्शकों ने खूब तारीफ की। मेघनाद की भूमिका में अंकित, नेगी का अभिनय शानदार रहा।

एक नजर

सड़कों पर पैच वर्क का कार्य शुरू

नई टिहरी : मुख्यमंत्री के निर्देश और स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद नई टिहरी नगर में सड़कों में बने गड्ढों को भरने का काम शुरू हो गया है। इन दिनों सड़कों पर लोनिविक के कर्मचारी गड्ढों को भरने के लिए पैच वर्क का कार्य कर रहे हैं। नगर की १ किमी. की आंतरिक सड़कों पर 12 लाख की लागत से पैच वर्क का कार्य किया जा रहा है। बरसात के बाद से ही नई टिहरी नगर की आंतरिक सड़कें गड्ढों से बढहाल बनी थीं। जिससे स्थानीय लोगों को ख़ासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। डीएम के जनता मिलन कार्यक्रम में लंबे समय से सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए पैचवर्क करवाने की मांग की जा रही थी। जिस पर डीएम मयूर दीक्षित ने संज्ञान लेते हुए लोनिविक और नगर पालिका को सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए निर्देशित किया था। बार-बार आम लोगों की शिकायत व प्रशासन की पहल पर नगर की आंतरिक सड़कों पर गड्ढों को भरने के लिए पैच वर्क कार्य शुरू हो चुका है। प्रांतीय खंड लोनिविक के जेई उषा बिष्ट ने बताया कि 12 लाख की लागत से नगर की १ किमी. की आंतरिक सड़कों पर गड्ढू भराने को पैच वर्क कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्दी कार्य को पूरा कर आम लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। (एजेंसी)

दशमी पर भगवान श्रीराम के किए दर्शन

नई टिहरी : भगवान श्रीराम की तप स्थली देवप्रयाग में विजयादशमी पर्व पर परम्परागुसार भगवान रघुनाथ की उत्सव मूर्ति मंदिर परिसर स्थित पत्थर की प्राचीन छतरी में दर्शन प्राप्त हेतु रखी गयी। तीर्थपुरोहित समाज द्वारा शादीय नवरात्र की हरियाली घरों से लाकर भगवान रघुनाथ की समर्पित करते हुए सभी की सुख समृद्धि की प्रार्थना की गयी। मान्यता है कि भगवान राम द्वारा देवप्रयाग तीर्थ में रावण वध से लगे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हेतु प्रार्थयित तप किया गया था। विजया दशमी पर तीर्थ नगरी स्थित रामकुंड व संगम स्थल पर श्रद्धालुओं द्वारा पर्व स्नान कर भगवान रघुनाथ का दर्शन प्राप्त किया गया। इस अवसर पर पुजारी समीर पंचपुरी द्वारा भगवान का विशेष श्रुंगार किया गया। बदरी केंदार के यात्रियों का भी यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए तांता लगा रहा। (एजेंसी)

राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज से, विधायक किशोर करंगे उद्घाटन

नई टिहरी : माध्यमिक शिक्षा विभाग की अंडर-14, 17 और 19 बालक वर्ग की राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 526 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। रविवार से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय करेंगे। प्रतियोगिता आगामी 13 से 15 अक्टूबर तक नई टिहरी के गांधी स्टेडियम घंटेघर में आयोजित होगी। सीईओ शिव प्रसाद सेमवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को लेकर सभी तैयारियों के साथ खिलाड़ियों के लिए आवासीय व्यवस्था भी कर ली गई है। जिला व्यायाम शिक्षक विनोद नेगी ने बताया कि यहाँ के प्रतिभागियों में राज्य स्तरीय से चयन होकर राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतिभाग सुनिश्चित करना जायेगा। क्रीड़ा आयोजन के मीडिया भागी चक्रभार भद्री ने बताया कि स्टेडियम में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल का आयोजन प्रथम बार किया जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉलेज देहादुन सहित 13 जिलों के 526 खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। खेल प्रतियोगिता का बतौर मुख्य अतिथि विधायक किशोर उपाध्याय उद्घाटन करेंगे। (एजेंसी)

शादी में कॉकटेल नहीं करने पर किया सम्मानित

नई टिहरी : जपद के चंबा ब्लॉक के खुबैत निवासी एसआरटी परिसर के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष व एडवोकेट प्रदीप सकलानी के भाई प्रमोद सकलानी की शादी में कॉकटेल पार्टी की कुप्रथा को नहीं चलने दिया गया। शादी में समाजसेवी सुशील बहुगुणा की शराब नहीं-संस्कार दो मुहिम को अपनाते हुए शराब को नहीं परोसा गया। जिसके लिए बहुगुणा ने अपनी संस्था राइस की ओर से प्रमोद सकलानी और उनके परिवार सहित वर-वधु को शराब से दूरी बनाने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने सकलानी परिवार की इस पहल की सराहना की। ग्राम प्रधान रविंद्र सकलानी, भरताराम सकलानी, रुकमिण देवी ने शराब नहीं-संस्कार दो मुहिम की सरहना करते हुए कहा कि नशा जीवन की दिशा को खराब करता है। इसलिये शादी में शराब परसेने वाली कुर्गीत को ठेका जाना जरूरी है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता शांति प्रसाद, राइस संस्था के जगदीश बढोनी और रंजीता थपलियाल मौजूद रहे। (एजेंसी)

धूं-धूं कर जला रावण का पुतला

जयन्त प्रतिनिधि। **लैंसडौन :** दुर्गा पूजन के दसवें दिन मनाए जाने वाली विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व पर हर साल पर्यटन नगरी में ऐतिहासिक गांधी चौक में विजयदशमी त्यौहार का आयोजन किया जाता है। पर्यटन नगरी लैंसडौन में दशहरा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गांधी चौक पर असत्य पर सत्य की जीत के इस पर्व में सैकड़ों लोग शामिल हुए। भगवान श्रीराम व उनकी सेना द्वारा रावण सेना को समाप्त करने के बाद रावण का पुतले धू-धू कर जला।

इस बार रामलीला कमेटी लैंसडौन के द्वारा ऐतिहासिक गांधी चौक में 25 फीट का रावण का पुतला लगाया गया। रावण का पुतला आधुनिक युग में पर्यटकों के लिए एक सेल्फ़ी प्वाइंट बना। रावण के पुतले को किसी प्रकार की हानि ना होे दहन से पहले इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा

इको फ़ैंडली व सेफ टूरिज्म को विकसित करने का लक्ष्य: कमिश्नर रावत

पिथौरगढ़। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने दुर्गु से पंचाचूली तक ट्रेकिंग कर पर्यटकों की सुविधाओं का निरीक्षण किया। दुर्गु गांव से पंचचूली बेस कैंप मार्ग में अधिक फिसलन होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश देकर यात्रा मार्ग में पटल लगाने के निर्देश दिए।

बीते दिवस कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, डीएम विनोद गोस्वामी, सीडीओ डॉ.दीपक सेनी ट्रेकिंग कर पंचाचूली बेस कैंप पहुंचे। कुमाऊंकमिश्नर दीपक ने कहा कि दारमा वैली काफी बदल रही है,सड़क,विजली जाने से सुविधाएं बढी हैं। ग्रामीणों व ट्रेकर्स ने छोटे ट्रेक,फिकनिक स्पॉट बनाने के सुझाव दिए



के पुखा इंतजाम किए थे। जिसके पास बाहर राज्यों से आए पर्यटकों ने खूब सेल्फ़ी खींची। रावण का पुतला आमकंपन का केंद्र बना रहा। इस बार रावण का

करनपुर दुर्गा पंडाल से मां दुर्गा की भावपूर्ण विदाई

देहरादून। शादीय नवरात्र के अवसर पर बजरंग सेवा समिति की ओर से करनपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में दुर्गा पूजा का समापन प्रतिया विसर्जन के बाद हुआ। ब्रह्मालुओं ने मां दुर्गा को रंगों की होली खेल भावपूर्ण विदाई दी। ढोल नगाड़ों संग प्रतिया विसर्जन मालदेवता में किया गया। मंदिर में स्थापित पंडाल से मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां काली, गणेश जी की प्रतिमाएं विसर्जन से पहले पूजा अर्चना, क्षमा प्रार्थना के बाद ढोल नगाड़ों और बँड बाजे के साथ शोभायात्रा निकाली गई। मां को धूम धाम से विदा करने आया नाचते गाते भक्त समूह फूलों की बारिश कर रहा था। इस अवसर पर मंदिर समिति संरक्षक सूर्यकांत धरमना ने मूर्तियों का माल्यार्पण कर मंदिर समिति, पूजा समिति और बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को मां की पूजा निर्विघ्न सम्पन्न होने और विजय दशमी की शुभकामनाएं दीं।



हुआ। इसमें मेघनाथ, कुंभकरण, रावण व उसकी सेना राम सेना के झण्डे मारी गई।

बाद रावण, मेघनाथ व कुंभकरण के पुतलों का दहन किया गया। पुतला दहन होते ही आतिशबाजी का नजार आकर्षक रहा। प्रत्येक पुतला दहन के बाद करीब 10मिन्ट तक पटाखों की आवाजें

पार्वती इंडेन गैस सर्विस का उद्घाटन, कंपोजिट गैस सिलेंडर का मिलेगा लाभ

इंडियन गैस सर्विस का शुक्रार्र को केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टप्टा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक कैलाश शर्मा, जागेश्वर देशभर के 26 खिलाड़यों शामिल हो रहे हैं। जिनमें पूर्व तरह हट्टिबाधिन 10, दो मीटर तक दृष्टि वाले 7 और छह मीटर तक दृष्टि वाले १ खिलाड़ी शामिल हैं। गंभीर भी छह मीटर तक दृष्टि वाली बी श्री कैटेगरी के खिलाड़ी हैं।

नयाल के मुताबिक गंभीर का चयन भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे के लिए गंभीर का चयन टीम में पूर्व में हुआ था, लेकिन तब कोविड की वजह से दौर रह हो गया था।

और नजीबाबाद से बनवाया जाता है। और इस पुतले को बनाने में मुस्लिम परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बरसां से उनके द्वारा रावण के पुतले बनाए जाते हैं। पर्यटन नगरी लैंसडौन में दशरहे पर रावण दहन के दौरान किसी भी तरह की समस्या ना हो इसके लिए पहले से ही सुस्था के पुखा प्रबंध किए गए। रोचक तथ्य कि दशकों से रावण की

अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं प्रेम थापा। रामलीला कमेटी के अनुसार प्रेम थापा और उनका परिवार रामलीला आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। केदारनाथ उप चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी। प्रदेश प्रभारी कुमार शैलजा के निर्देश पर पीसीसी अध्यक्ष की ओर से खटौया विधायक व उभेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और इब्रेन्द्रा विधायक बिरेन्द्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

केदारनाथ सीट पर शीघ्र ही उपचुनाव होना है।ऐसे में सत्ताधारी दल की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ ही मंत्रियों तक को मोर्चे पर उतारा गया है। वही इस मामले कांग्रेस पिछड़ीनी नजर आ रही थी। अब पार्टी ने अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाया है। दो युवा नेताओं को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त कर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दोनों नेता शीघ्र केदारनाथ विधानसभा पहुंचकर जिला ब्लॉक, नगर अध्यक्ष, पीसीसी सदस्य, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से सम्न्वय स्थापित करते हुए सभी से व्यक्तिगत मुलाकात कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे।

युवाओं की सफलता की कहानी



करने के बाद वो भी वापस भीमताल लौट आएंगे, वो अब तक टिहरी झील के ऊपर कई प्रशिक्षण उड़ानें भर चुके हैं।सीमांत जिला चमोली के कुनौल गांव निवासी दिनेश सिंह अभी संविदा की नौकरी कर रहे हैं। दिनेश सिंह अब पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित पैरग्लाइडिंग कोर्स का प्रशिक्षण ले रहे हैं। दिनेश सिंह मई जून

तरफ से नि:शुल्क पैरग्लाइडिंग कोर्स की जानकारी मिली तो उन्होंने, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। जोशी बताते हैं कि उनके क्षेत्र में पहले से ही कई लोग इस पेशे में काम कर रहे हैं, प्रशिक्षण पूरा

वायुसेना की कार रैली 14 को दून पहुंचेगी

देहरादून। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा शनिवार को श्रीनगर राजभवन से भारतीय वायुसेना और उत्तराखंड युद्ध स्मारक के संयुक्त कार रैली को हरी झंडी दिखा तवांग अरुणाचल के लिए रवाना किया। यह रैली तवांग के रास्ते 14 की शाम देहरादून पहुंचेगी।उत्तराखंड युद्ध स्मारक के अध्यक्ष व राज्यसभा के पूर्व सांसद तरुण विजय ने बताया कि उप राज्यपाल, सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि वायु सेना हमेशा पराक्रम, शौर्य व विजय का प्रतीक रहेगी। विजयदशमी के शुभ अवसर पर कार रैली रवाना हुई है यह बहुत ही शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि इस रैली के जरिए वायु सैनिक स्थानीय युवाओं को वायुसेना में भर्ती के लिए प्रेरित भी करेंगे। तरुण विजय ने बताया कि 15 अक्टूबर को रैली में शामिल जवान उत्तराखंड युद्ध स्मारक स्थित शौर्य स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे।

अल्मोड़ा में दशहरे पर निकली दुर्गा माता की भव्य शोभायात्रा

अल्मोड़ा। दशहरा पर्व के अवसर पर अल्मोड़ा में दुर्गा माता की शोभायात्रा निकली गई। इस दौरान माता की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। झांकियों में नगर के लोगों ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया। नवरात्रि के समापन तथा दशरहे के अवसर पर शनिवार को नगर के सभी मोहल्ले से दुर्गा माता की शोभा यात्रा निकाली गई। नगर के सभी दुर्गा पंडालों से दुर्गा माता की प्रतिमाएं झांकी में सजाकर शिखर तिराहे पर पहुंचीं। जहाँ से झांकियां मुख्य बाजार होते हुए ब्रह्म विजर्जन स्थल को रवाना हुईं। झांकियों में भवत उसाह में झूमते, धीरेन गाते नजर आए। भक्तों ने झांकियों पर फूल बरसाए और प्रसाद ग्रहण किया। इससे पहले नगर के विभिन्न मोहल्ले से निकली

झांकियों का जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया। झांकियों में सजावट के साथ

आरएसएस ने धूमधाम से मनाया 99वां स्थापना दिवस

त्रुषिकेश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 99वां स्थापना दिवस शनिवार को धूमधाम से मनाया। स्थापना दिवस और विजयादशमी पर आरएसएस के स्वयंसेवकों ने शंख पूजन किया। शनिवार को श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज के प्रांगण में विजय दशमी और 99वें स्थापना दिवस पर आरएसएस के स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के तहत प्रधानाचार्य मेजर गोविंद सिंह रावत की अध्यक्षता में शंख पूजन किया गया। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हरिद्वार विभाग के विभागा प्रचारक चिरंजीव ने कहा कि संघ अपने 6 उत्सव में से एक विजयदशमी को स्थापना दिवस की रूप में मनाता है। जिसे सनातन संस्कृति के अनुसूच मनाया जाता है, क्योंकि इस पर्व को नौ दिनों तक शक्ति स्वस्था मां दुर्गा शक्ति के नौ देवी के व्रतों को पूर्ण करने के पश्चात विजयदशमी मनाते हैं। यह हमारी कार्य स्वयं सेवक समाज के बीच में जाकर समाज में जागरण का काम करें।

शंख का भी पूजन किया जाता है। संघ अपने कार्य के बल पर 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। जो कि पूरे विश्व में विभिन्न संगठनों के माध्यम से सेवा भाव का कार्य करते हुए वट वृक्ष के रूप में अपने को स्थापित कर चुका है। जिसके चलते संघ सज्जन शक्ति के माध्यम से समाज को एक जुट करने का कार्य कर रहा है। अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए संघ एक जुटता के साथ कार्य कर रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को आगे आने की आवश्यकता है। संघ का कार्य समाज के अंदर विद्वेषो को दूर कर समाज को सही दिशा में चलने के लिए जगाना भी है। हमार्य देश तभी विकास के क्षेत्र में आगे बढेगा जब समाज का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य के लिए जागृत होगा, तबताब्दी वर्ष में हमारी जिम्मेदारी है कि संघ का प्रत्येक स्वयं सेवक समाज के बीच में जाकर समाज में जागरण का काम करें।

प्रशिक्षण ले रहे हैं। दिनेश बताते हैं कि सरकार रहने खाने से लेकर प्रशिक्षण तक नि:शुल्क दे रही है। दिनेश सिंह इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं।

जेल स्टॉफ की लापरवाही का नतीजा हरिद्वार जेल ब्रेक कांड

हरिद्वार। सूबे की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली हरिद्वार जेल के ब्रेक होने से जेल व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जेल ब्रेक कांड में पुरी तरह से जेल प्रशासन की भूमिका कठघरे में है, यह बात शोशे की तरह साफ हो चुकी है। इस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी पर फोकस किया होता तो संभवत जेल ब्रेक कांड नहीं हो सकता था। डीएम कमेंद्र सिंह ने पटनास्थ को लेकर जेल प्रशासन की लापरवाही होने की बात बेबाकी से कही है।

डोईवाला में हर्षोल्लास के साथ मनाया दशहटा पर्व

त्रुषिकेश। डोईवाला में असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा धूमधाम से मनाया गया। दशहरा पर रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान रामलीला के कलाकारों ने नगर में झांकी भी निकाली। शनिवार को पात्र दशहरा मेला एवं र्रीड़ा समिति डोईवाला ने स्व. ललित बाली की स्मृति में दशहरा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसके तहत शोभायात्रा निकाली गई। देहरादून से आए रंगमंच के कलाकारों ने भगवान श्रीराम, शिव परिवार, माता चामुंडा, भगवान शिव का महाकाल रूप, अंधेरी, भगवान गणेश की झांकियां निकाली।

यह झांकी प्रेमनगर बाजार से प्रारंभ होकर मिल गेट, शुभार मिल रोड, नगर चौक होते हुए त्रुषिकेश रोड केशव पुरी दशहरा मेला मैदान में पहुंचकर संपन्न हुई। वहां मुख्य अतिथि शहरी विकास

एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यह पर्व धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके बाद रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले का दहन किया गया। मौके पर गौतम जाहर, क्रीड़ा समिति अध्यक्ष एडवोकेट रमेश्वर प्रसाद लोधी, प्रसिद्ध उद्योगपति रमेश्वर हवेलियां, अनिल महावर, सागर मनवाल, राकेश गुप्ता, अरवि ब्लाक प्रमुख नगीना रानी, भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, भाजपा मीडिया प्रभारी भारत गुप्ता, ईश्वर चंद अग्रवाल, मनीष नैथानी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल, संजीवनी बाली, राजेंद्र वर्मा, दामन बाली, गौरव मल्होत्रा, हरिश्चंद्र वर्मा, अवतार सिंह सेनी, मनीष धीमान, संदीप विश्वकर्मा, ओम प्रकाश कंबोज, विनय जिंदन, विनय कंबोज, अमित कुमार, सुंदर लोधी आदि उपस्थित रहे।

जयन्त

संस्थापक

स्व.नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक,मुद्रक और
स्वामी
नागेन्द्र उनियाल
द्वारा प्रतिभा
प्रेस से मुद्रित तथा
बद्रीनाथ मार्ग
कोटद्वार (गढ़वाल)
से प्रकाशित
—सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
आर.एन.आई. 35469 /79
फोन /फैक्स 01382-222383
मो. 8445596074, 9412081969
e-mail:
nagendra.uniyal@gmail.com

जयन्त

संस्थापक

स्व.नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक,मुद्रक और
स्वामी
नागेन्द्र उनियाल
द्वारा प्रतिभा
प्रेस से मुद्रित तथा
बद्रीनाथ मार्ग
कोटद्वार (गढ़वाल)
से प्रकाशित
—सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
आर.एन.आई. 35469 /79
फोन /फैक्स 01382-222383
मो. 8445596074, 9412081969
e-mail:
nagendra.uniyal@gmail.com

ही नहीं विदेश से भी लोग यहां पहुंचते हैं। स्थान की कमी के चलते दशहरा समिति ने इस वर्ष दशहरा पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किए। दशहरा महोत्सव समिति के अध्यक्ष अजीत कार्की ने बताया कि अगले वर्ष से यदि सड़क बना गई तो दशरहे के सभी कार्यक्रम जीआईसी अल्मोड़ा के मैदान में होंगे। दशहरा महोत्सव में समिति द्वारा पुतलों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार भी दिए गए। वहाँ दशहरा महोत्सव में समिति अध्यक्ष अजीत कार्की, सचिव वैभव पांडे, विधायक मनोज तिवारी, निवर्तमान पालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, संयोजक किशन लाल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, हरिश कनवाल सहित गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधि एवं भारी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।



थी, तब मशालों से अल्मोड़ा के बंदेक्ष में रामलीला की शुरुआत की गई थी। पहले रावण का ही पुतला बनता था फिर

समय के साथ पुतलों की संख्या बढ़ती गई और आज लगभग सभी मोहल्लें में रावण परिवार के पुतले बनते हैं। प्रशासन